

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2015—श्रावण 6, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015 (श्रावण 6, 1937)

क्र. 16622-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 28 जुलाई 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतदद्वारा,
इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 28 जुलाई, 2015

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.